

# INTER SCHOOL QUIZ ON EARTHQUAKE TIPS

26 Jan 2010 – Final Round

# WINNER

## भूकंप क्विज में इलाहाबाद जीता, शहर को दो स्थान

कानपुर, शिक्षा संवाददाता : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में हुई अर्थ क्वेक (भूकंप) क्विज में पहला स्थान इलाहाबाद को मिला और दूसरा व तीसरा स्थान शहर के स्कूलों ने जीता।

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से भूकंप से जुड़े चार चक्रों में अलग-अलग सवाल पूछे गये। सवाल आईआईटी प्रो. सीवीआर मूर्ति ने तैयार किए थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद इलाहाबाद के जगत तारन गोल्डेन जुबली स्कूल की टीम ने 81 अंक अर्जित कर पहला स्थान जीता। करम देवी मेमोरियल अकादमी की टीम 11 अंकों से पीछे रहकर 70 अंकों से दूसरे व 64 अंकों के भरोसे सर पदमपत सिंहानिया एजुकेशन सेंटर की टीम ने तीसरा स्थान जीता। मुख्य अतिथि डॉ. दुर्गेश चंद्र राय (एनआईसीईई) ने टीमों के प्रत्येक प्रतिभागी को क्रमशः प्रथम वालों को 1,000 रुपये, द्वितीय को 750 रुपये तथा तृतीय को 500 रुपये नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र प्रदान किये। डॉ. केके बाजपेई ने धन्यवाद दिया।

## Inter-school quiz on earthquake tips at IIT-K

TIMES NEWS NETWORK

**Kanpur:** National Information Centre of Earthquake Engineering (NICEE) at Kanpur conducted an inter-school quiz competition on Earthquake tips at the Outreach auditorium at IIT-Kanpur on Tuesday.

The quiz was organised on the occasion of Republic day, also the ninth anniversary of the Bhuj earthquake.


The quiz had four rounds viz Round Robin, Picture round, Rapid Fire round and Lucky number round. The questions were mostly from the publication 'Earthquake Tips' by Dr CVR Murty and other were based on earthquakes which have occurred in India and in other countries. The winners of preliminary rounds participated in the final quiz.

It was the Jagat Taran Golden Jubilee School, Allahabad represented by Hemangi Das, Arunima Singh,

Pradyot Srivastava and Tanoy Banerjee that emerged as a winner. A cash prize of Rs 1,000 was given to each of the participants. The first runner up and second runner up were given Rs 750 and Rs 500 (to individual participant). The certificate and prizes were distributed by the coordinator NICE

Dr Durgesh Rai, also the chief guest of the function.

Dr KK Bajpai of IIT-Kanpur delivered the vote of thanks to participants and the schools management. Dr Bajpai also appreciated the NICEE team consisting of Anamika Dikshit,



Megha Singh, Tanusri Mondal, Sandhya Sharma, Seema Kushwaha and Malikhan Singh for making the event a success. Further, it was proposed to make the quiz an annual event with the final round of quiz being held on January 26 every year to memorialise the devastating Bhuj earthquake of 2001.

## अर्थ क्वेक क्विज में केडीएमए विजेता बना

कानपुर, 27 जनवरी। आईआईटी कानपुर द्वारा आयोजित की गयी अर्थ क्वेक क्विज प्रतियोगिता में करमदेवी मेमोरियल एकेडमी ने सफलता हासिल की है। प्राकृतिक आपदा मनुष्य के जीवन में तबाही मचाती है। मनुष्य के जानमाल की बर्बादी हमारे हृदय को भी झकझोर देती है। इस प्राकृतिक आपदा से जागरूक करने व इससे बचाव के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी। इस प्रतियोगिता में करमदेवी मेमोरियल अकादमी ने द्वितीय एवं सीएमएस लखनऊ ने तृतीय स्थान हासिल किया।

## केडीएमए और पदमपत भी विजयी हुईं

कानपुर। छब्बीस जनवरी को आईआईटी आउटरीच में इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता की गई। नेशनल इनफार्मेशन सेंटर आफ अर्थक्विक इंजीनियरिंग के हुए कार्यक्रम में इसी तिथि को 2001 में भुज में हुए भूकंप में हुई हानि को याद किया गया। कार्यक्रम में डा. सीवीआर मूर्ति ने अर्थक्विक की जानकारी दी। बताया कि प्रतियोगिता का पहला राउंड 18 दिसंबर-09 और 21 जनवरी-10 को कानपुर में और 5 जनवरी को इलाहाबाद में हुआ था। लखनऊ में यह राउंड 8 जनवरी को और गोरखपुर में 11 जनवरी को हुआ था। प्रतियोगिता में कानपुर के 10, इलाहाबाद के 7, लखनऊ और गोरखपुर के 6 स्कूलों ने हिस्सा लिया है। प्री राउंड में बाहरी स्कूलों के साथ शहर के केडीएमए और पदमपत सिंहानिया स्कूल विजयी हुए थे।

26 January